

7<sup>th</sup> March, 2024

Corporate Relationship Department **BSE Limited**Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

, ,,

Exchange Plaza, Plot No. C-1,

Block G, Bandra – Kurla Complex,

Bandra (East), Mumbai – 400 051

**National Stock Exchange of India Limited** 

Script Code: 522281 Symbol: RAMRAT

Sub.: Compliance under Regulations 30 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulations 30 & 47 of Listing Regulations, we hereby enclose the copies of newspaper advertisement published by the Company regarding completion of electronic dispatch of Postal Ballot Notice sent to the Members of the Company on Wednesday, 6<sup>th</sup> March, 2024. The same was published in the following newspapers, today:

- i. All India edition of Financial Express;
- ii. Mumbai edition of Loksatta; and
- iii. Delhi edition of Jansatta.

You are requested to kindly take on record the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Ram Ratna Wires Limited

Saurabh Gupta
Company Secretary & Compliance Officer
M. No.: A53006

Encl: A/a

## Indian firms score high on corporate governance

Distribution of governance scores of BSE100 companies






INDIA'S CORPORATE GOVERNANCE practices have improved vastly over the past five years, according to a study done by Institutional Investor Advisory Services India (IiAS). The report called "Corporate governance report called "Corporate governance scores 2023" says despite a revision in the scorecard with more stringent benchmarks, companies that have scored 60 and above are now 64 out of 100, against just 45 in 2019. The skew has clearly shifted, reflecting better governance practices. Scores in three of the four categories of assessment have improved, driven mainly by an nave improved, criven mainly by an increase in transparency and disclosure. The availability of non-financial disclosure (ESG, etc) has increased as more companies are publishing sustainability reports or are following integrated reporting. Policies and charter documents are now more easily available, and companies have become a bit more accessible. All become a bit more accessible. All these are good practices that investors welcome. There are however, several areas that need improvement. The overall score in the category of "Responsibilities of the Board" has decreased over the past five years, a reflection of the continued passiveness of hoards in addressing passiveness of boards in addressing governance issues. —FE BUREAU Governance is correlated to board independence, board diversity, and higher institutional shareholding for companies in the BSE100 (in %) Leaders



Boards having >50% independent directors vith a tenure of <10 years

vith a tenure of <10 years \*Board comprises at least 30% women directors



Companies where executive pay has been	2021	34%
aligned to company performance over the	2022	40%
past three years	2023	38%
Companies where executive pay	2021	43%
structures have at least 50% variable pay and	2022	50%
aggregate pay is less than 5% of profits	2023	59%

Companies that disclosed performance metrics for executive remuneration

NA 2022 22%

## MI's Shabnim Ismail becomes first woman to break barrier of 130 kph

The speedster has long been considered the fastest in women's cricket

VINAYAKK MOHANARANGAN

has been for a long time. The South African speedster, now retired from international cricket, has long been considered the fastest in the women's game. On Tuesday, she was credited by the Women's Premier League broadcasters as breach-ing the 130kph barrier, which would be the fastest recorded

would be the fastest recorded delivery in women's cricket since the time data is available. The sequence of events around the particular delivery, though, was a little eyebrowraising. On her return from a briefi nijuy break, it did feel like Ismail was pumping the pace up in her opening spell for Mumbai Indians against Delhi Capitals. After she arn in to how the first Indians against Delhi Capitals. Aftershe rani no bowl the first ball of the third over, with Meg Lanning on strike, the broadcast feed had a pop-up poll question. "Will Shabnim Ismail break the 130kph barrier?" Following that, they also showed Ismail's fastest speeds recorded in the WPLso far, with 127.2kph being the highest.

the highest.

As it turned out, the very next ball – a cross-seam fullish delivery that thudded into Lanning's pads – would throw up an incredible number at the bottom of the screen: 138.3 kph. At that moment, it barely registered, mainly because all the players, Ismail included, were busy conferring on whether to review the not out decision on the LBW appeal. As the speed review the not out decision on the LBW appeal. As the speed disappeared from the screen, the players too dispersed and there was no remark from the broadcasters at that point of finish her spell, that the broad-casters brought it up. "A little

earlier, we asked the question if Shabnim will break that barrier." said the commentator on air. "And here's the answer, the

606

"And here's the answer, the fastest delivery of the night was 132.1 kph. That is slippery." Is mail was then asked about the moment during the innings break and she underplayed it, also indicating shewasn't happy with the way she bowled on the night." I'm not sure, I don't actually look at the big screen when I am bowling," she said.

The discrepancy between the two numbers could be put down to the fact that instanta-

down to the fact that instantaneous speed guns can often be errant. Independent verification of speeds is also not a possibility in the WPL. "There's the speed gun reading, which is what is shown as the ball is bowled and can be very variable, and then there's ball tracking which is

nore accurate, though can still produce anomalies." John Leather, a cricket statistician who has covered the women's game extensively, says.

"It's possible the 132 number quoted later is from ball-

ber quoted later is from ball-tracking data. Ismailisabout the only current bowler who is, or has been, capable of reaching that speed in my opinion, though it would still be a signif-icant personal best for her. But we don't know, because the usual companies that have access to tracking data – Opta, CricViz – don't have it for WPL."

Threatening a record
There is no doubt that Ismail
has been on the verge of breaking the barrier. Playing for UP
Warriorz last season, she said in

are not frequently displayed, and even when they are, they appear on the screen only briefly. During Ismail's spell against DC, when the speeds were shown, howered mostly in the early 110s, with just two deliveries crossing 120.

Having said all that, if anyone was copie to get past the Having said all that, if anyone was going to get past sthe 130kph mark, it had to be Ismail.And 132.1 ismuch more within her range than 138. Born and raised in Cravenby. Cape Town in the Western Cape, Ismail played 241 international ODI, 7201

kph

Ismail

has played 241 international ODI,

T20I and Test matches for South

Africa, taking

317 wickets

In the last T20 WC, she recorded the

fastest over ever seen with speeds of 119, 122, 126, 120, 125 and 128

It is on my list, that is why I go to the gym all the time, to get stronger. Not really looking the partyet (laughs), but hopefully, I can get there soon. Looking for-ward to it, I am doing all the hard yards behind the scenes."

yards behind the scenes."

Leather, who has been closely tracking ball speeds in the women's game in the last few years corroborating them with ball-tracking numbers, also noted how there was one instance in the WPL last year

instance in the WPL Last year when Ellyse Perry supposedly clocked 130.5 kph for RCB, which was then shared as the official record by their social media handle. But anyone who has followed the game closely enough knew it was a numerical anomaly as Perry has never really threatened 130 kph in her storied career.

The speeds during the WPL

national ODI, 7201

national ODI, 7201

national ODI, 7201

national rest matches for South Africa, taking 317 wick-test, Originally a football fan, Ismail got into cricket with encouragement from her mother and grandfather. She went on to establish hersef as one of the best fast bowlers in women's cricket, finishing only behind flutlan Goswami – now her howline costs at Manya. her bowling coach at Mumbai Indians – in the list of ODI wicket-takers.

wicket-takers.
Ismail was always fascinated by speed – she talks
almost as quickly as she bowls
- and even at 35, she is keeping
the numbers high.
During a 16-year international career, Ismail featured in
four 50-over World Cups and
eight 720 editions. As recently as
the last T20 World Cup, where eight Tateditions. As recently as the last T2D World Cup, where she was the spearhead of South Africa's superb bowling unit on their way to the final, she was cranking it up. In the semifinal against England, as per Leather, Ismail bowded what was perhaps the fastest over seen inwomen's cricket with speeds of 119,122, 126,120, 125 and 128.

There is no official gate-keeping for speeds in the game, so for all intents and purposes, it's a piece of trivia, and not a ratified record. The available data is not extensive enough for that.

That said, as Leather puts it. "Regardless of whether this specific reading is accurate, the title of fastest bowder in women's cricket already belongs to Shabnim Ismail."

## EC yet to get bond details from SBI

STATE BANK OF India (SBI) has not shared details of the electoral bonds encashed by political parties till Wednesday, the deadline set by the Supreme Court.

The State Bank of India

(SBI) had on Monday moved the Supreme Court seeking an extension of time till June 30 to disclose details of each

ef. No. : BPSCL/MM/23-24/Paper Advt./515

electoral bond encashed by the political parties.

The SBI's plea has not been listed for hearing by the aper court so far. Sources said than on details have been shared with the poll panel.

The information should include the date of encashment and the denomination.

no details have been shared with the poll panel. Last month, a five-judge constitution bench headed by Chief Justice D Y Chandrachud had struck down elec-

Bokaro Power Supply Co. (P) Ltd.

**DIPNA PHARMACHEM LIMITED** Corporate identification Number: L2410GJ2011PLC056400
ggistered Office: AI211, 3iddith Vinayak Complex, Near D.A.V. School, Makarba, Ahmedabad - 380 055, Gujarat
Telephone: +91-9838066121; Email id: dharachem99gyahoo in; Wobsite: www.dipinapharmachem.com;

PROMOTERS: MR. KEYUR DIPAKKUMAR SHAH OF UPTO 1.28 F.S.OF INILLY PADUP EQUITY SHARES OF SECAULUE OR IS 1000-EACH ("EQUITY SHARES") OF PHARMACHEM LIMITED ("DPL" OR "DIPNA" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. PER EQUITY SHARE ("SIZE PRICE"), A GREEN THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. WITH COMPANY SHARES ("SIZE PRICE"), A GREEN THE "COMPANY" OF THE THOUGHT OF THE STATE OF THE THE PRICE OF THE STATE OF THE ST

NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

PERIOD ISSUE CLOSING DATE (NEW) FRIDAY, MARCH 15, 2024

ISSUE CLOSING DATE (OLD) THURSDAY, MARCH 07, 2024

tall No. : M-01, Old Administrative Building Ispat Bhavan, Bokaro Steel City-82 NOTICE INVITING TENDER

2021

ment and the denomination of the bonds and be submitted to the poll panel by March 6. —PTI

## KSHITIJ INVESTMENTS LIMITED

(CIN: L67120MH1979PLC021315)
("KSHITU"/ KIL: /"TARGET COMPANY"/ "TC")
stered Office: 509, Loha Bhayan 93, P D'mello Road, Carnac Bander Mumbal Cilly
Phone No. 022-23480344, (1491) 8330898807; Email M: Mahlum/Melögamalic

The Advertisement is being issued by Navigant Corporate Associations intensional Conference (Appeller 1) and Mr. Rahul Agrawal (Acquirer -1) and Mr. Rahul R

There has been no competitive bid to this Offer.
The completion of dispatch of The Letter of Offer ("LOF") to all the Public Shareholders of Target Company was compl O4" March, 2024.

of March, 2024.

Please note that a copy of the LDF is also available on the website of Securities and Exchange Board of India (SEBI), www.self. poxil and also on the website of Manager to the Offer, www.navigant.com.com and shareholders can also apply or plain paper as per holes details:

Eligible Preson(s) may participate in the Offer by approaching their respective Broker/Selling Broker and tender Shares in the Open Offer as per the procedure along with other details.

In terms of Regulation 16(1) of this SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer had been spanning to SEBI on 20% July, 2023. We have received the final observations in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulation 16(4)

Activity	Unigiliai Date	Uriginal Day	neviseu Date	neviseu Day
Public Announcement	12.07.2023	Wednesday	12.07.2023	Wednesday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	19.07.2023	Wednesday	19.07.2023	Wednesday
Submission of Detailed Public Statement to BSE, Target Company & SEBI	19.07.2023	Wednesday	19.07.2023	Wednesday
Last date of filing draft letter of offer with SEBI	26.07.2023	Wednesday	26.07.2023	Wednesday
Last date for a Competing offer	09.08.2023	Wednesday	09.08.2023	Wednesday
Receipt of comments from SEBI on draft letter of offer	18.08.2023	Friday	10.01.2024	Wednesday
Approval from BSE for Proposed Preferential Issue*	N.A.	N.A.	22.02.2024	Thursday
Identified date**	22.08.2023	Tuesday	23.02.2024	Friday
Date by which letter of offer be dispatched to the shareholders	29.08.2023	Tuesday	04.03.2024	Monday
Last date for revising the Offer Price	04.09.2023	Monday	06.03.2024	Wednesday
Comments from Committee of Independent Directors of Target Company	01.09.2023	Friday	06.03.2024	Wednesday
Advertisement of Schedule of activities for open offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchange and Target Company	04.09.2023	Monday	07.03.2024	Thursday
Date of Opening of the Offer***	05.09.2023	Tuesday	11.03.2024	Monday
Date of Closure of the Offer	18.09.2023	Monday	22.03.2024	Friday
Payment of consideration for the acquired shares	05.10.2023	Thursday	10.04.2024	Wednesday
Final report from Merchant Banker	12.10.2023	Thursday	19.04.2024	Friday

\*Refers to the date on which the letter dated 22" February, 2024 from the BSE Limited was received by the Target Co granting the "In-principle" approval under Regulation 28(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Require Regulations, 2015.

Regulations, 2015.

\*\*Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the Acquirers, Promoters and Selers) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

\*\*\*The date has been calculated from 22\*\*February, 2024, being the date of receipt of ISE letter dated 22\*\*February, 2024 by the Target Company and based on the letter dated 19\*\*Jeansary, 2024 from SER between SER has granted extension for Commencement of the tradeting period not late than 12 evolving days from the date of receipt of ISE Approva.

\*\*Commencement of the tradeting period not late than 12 evolving days from the date of receipt of ISE Approva.

## OF. ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS MR. RAHUL AGRAWAL AND MR. ROHIT AGRAWAL



MR. KARIUL AGRAWAL AND MIR. KOHIT AGRAWAL
NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED
804, Meadows, Sahar Pitza Compiex, J B Nagar, Andheri Kurta Road, Andh
Mumbai - 400095. 18th. – 91 22 4120 4837 4973 5078
Email di: navigant@navigantcorp.com Website: www.anigantcorp.com
SEBI Registration No: INM000012243 Contact person: Mr. Sarthak Vijiani

Place: Mumbai Date: March 06, 2024

RAM RATNA WIRES LIMITED RR SHRAMIK

#### NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is heeby given to the members of Ram Ratna Wires Limited ("the Company") pursuant to the provisions of Section 110 read with Section 108 of the Companies ACz, 2013; ("the ACT) read with Fulle 20 and Fulle 22 of the Companies ACz, 2013; ("the Mex. 2014; ("the Mars). Secretarial Standard on General Meetings Searced by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), read with General Circular Nos. 147202 dated 8"d, part 1200, 177202 dated 13" April, 2020, read with other relevant circulars, including General Circular Nos. 1907/2023 dated 25" September, 2023 issued by the Minstry of Corporate Affairs ("McCA", (collectively the "McCA Circulars"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Poligations and orbit applicable provisions, if any, of the Act, rules, regulations, circulars and confideations (including any statutory modifications) or re-enactimently) thereof for the time being in force), through Postal Ballot, for voting through Section Grant ("Edit Collections") and Section of the Company Section ("Collections") as a midependent Director of the Standard ("Collections"). Appointment of Shir Adult Keda (IDN: 00072599) as an independent Director.

Appointment of Shri Ankit Ketta Lum. 2007.

Appointment of Shri Mahendrakumar Rameshwarlal Kabra (DIN: 00473310)

Re-appointment of Shri Mahendrakumar Rameshwarlal Kabra (DIN: 00473310)

Appointment of the Company. nt of Shri Ankit Kedia (DIN: 00072959) as an Independent Direct

re-apportunents or sim denanceraciums risanessimatis acra (unic vol 4 sa Iu) as Managing Director of the Company. compliance with the MCA Circulars and provisions of the Act, the Company has impleted the dispatch of the Postal Ballot Notice, by electronic mode only, or endenesday, 6° March, 2024 to those members of the Company whose names peared in the Register of Members / list of Beneficial Owners as received from to Popositionies / Datamatics Business Solutions Limited, the Company's Department of the Company's Company of the the Depositories / Datamatics Business Solutions Limited, the Company's Registra and Transfer Apent (RIA). as a close of business hours on Fisialy, "March, 2024, (i.e. "Qu-leff dail") and whose e-mail addresses are registered with the Company or its RTA and the Depositories. The said Postal Ballot Notice is also available on the Company's website at www.rrsbramik.com, websites of the Stock Exchanges ie. BSE Limited (RSE) and National Stock Exchanges of India Limited (RISE) at www.srsbindia.com and www.srsbindia.com prescribelya, and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.srsbindia.com.

(NSE) at www.bscindia.com and www.nscinda.com.respectivey, and on use whe site of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoiting.ndd.com
The Members whose names appeared in the Register of Members. I list of Beneficial Owners as on the Cut-off date shall only be entitled to vote on the Resolutions as set forth in the Potal Ballot Notice only through remote evoting instead of submitting the physical postal ballot form. The voting rights of the Members shall be reckneded in Proportion to the paid up engity shares highly them as on the Cut-off date. Any person who is not a Member as on the Cut-off date should treat this Potal Ballot Notice for information purpose only. In accordance with the MCA Circulats and provisions of the Act, the Company has engaged the services of NSDL for the purpose of providing remote e-Voling facility to its Members. The detailed procedure and instructions for remote e-voting are enumerated in the Potal Ballot Notice. The remote e-voting period commences at 900 A.M. (157) no Fiddy, 8" Marc, 2024 and ends at 500 PML (157) no Sunday, 7" April, 2024 (both days inclusive). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Shri Anup Vabbaro C. Khanna, Partner, M/s. Khanna & Co., Practicing Company through postal ballot.

The secretar the Asset applicated as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting through postal ballot.

ult of the Postal Ballot will be announced on or before Tuesday, 9th Apri

The result of the Postal Ballot will be announced on or before Tuesday, 9° April, 2024. and will be displayed on the notice board of the Company at its Registered Office. The result will also be uploaded on the website of the Company, website of NSDL and will also be intimated on NSE and SSE. In case of any questive price and connected with remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.eoriting.nstd.com or call on :022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evolvingingsids.com.

The Members who have not yet registered their email address, can follow the process as mentioned in the postal ballot notice. Further in case of any queries related to Postal Ballot Notice or in case any member whose name appears in the Register of Members? List of Beneficial Owners as on the cout off date, has not received the Postal Ballot Notice, he/she may write to investorelations.rvvi@riglobal.com.

For Ram Ratna Wires Limited

For Ram Ratna Wires Limited

For Ram Ratna Wires Limite

financi<mark>alexp.ep.e</mark>.in

**ISSUE** 

ASBA investors and must be a to engue ASBA investors and must be application amounts applicant category. ASBA investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure application for non-ASBA process. ASBA investors should carefully and the provisions applicated is out application for the making the registration through the ASBA process. For details, see "Terms of the Issue". Procedure for Application" on page 147 of the Letter of Office.

This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of losseur of the Rights Issue, which opened on Monday. Procedure of Application on page 147 of the Letter of Office.

Monday, 157 of Norway, 267 of the Assay. 157 decides on This stage of the Assay of March, 2624 has now been extended by the Company from Opportunity to shareholders for the Company from the Assay of the As Managing Direc

#### संक्षिप्त

#### टेनिस: सुमित नागल मख्य फेरीपासन वंचित

**इंडियन वेल्स :** भारताचा टेनिसपटू समित नागलने इंडियन वेल्स स्पर्धेच्या मुख्य फेरीपासून वंचित राहिला. सुमितने या स्पर्धेत पदार्पणाची लढत जिंकली होती. मात्र, पात्रता फेरीच्या दुसऱ्या फेरीत सुमितला दक्षिण कोरियाच्या सेऑंग चान होंगकडून ६-२, २-६, ६-७ असा पराभव पत्करावा लागला. पहिल्या फेरीत नागलने अमेरिकेच्या स्टिफन डोस्टेनिकचा पराभव केला होता. हा सामना जिंकल्याने समितला १० मानांकन गुण मिळाले होते. मात्र, त्याला पात्रतेच्या दुसऱ्या फेरीत आपली लय राखताँ आली नाही.

#### कबड़ी : रिझर्व्ह, युनियन बँकेची दमदार सलामी

**मुंबई :** स्वामी समर्थ क्रीडा मंडळाच्या राजाभाऊ देसाई स्मती व्यावसायिक गट राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेत रिझर्व्ह बँकेने मिडलाईन स्पोर्ट्सला ३६-३२ असे नमवत विजयी सलामी दिली. अन्य सामन्यात यनियन बँक संघाने सेंट्रल बँकेचा ४५-२६ असा पराभव केला. मुंबई बंदर संघाने न्यू इंडिया ॲश्युरन्सचा ४३-३१ असा, तर ठाणे महानगरपालिका संघाने रायगडच्या जेएसडब्लूचा ४८-१७ असा पराभव केला

# श्रीकांत, सिंधूचे संघर्षपूर्ण विजय

प्रणॉयचे आव्हान पहिल्याच फेरीत संपृष्टात

वृत्तसंस्था, पॅरिस

**ऑलिम्पिक पात्रतेच्या** शर्यतीत राहण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या फ्रेंच खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेत भारताच्या किदम्बी श्रीकांत आणि पी. व्ही. सिंधू यांना पहिल्या फेरीत विजय मिळवण्यासाठी तासाभराहून अधिक काळ शिकस्त करावी

#### फ्रेंच खुली बॅडमिंटन स्पर्धा

सिंधूने तब्बल १ तास २० मिनिटांच्या मॅरेथॉन लढतीनंतर कॅनडाच्या मिशेल लीचा २०-२२, २२-२०, २१-१९ असा पराभव केला श्रीकांतने तैपेइच्या चोऊ टिएन चेनचे आव्हान २१-१५, २०-२२, २१-८ असे १ तास आणि ६ मिनिटांत संपृष्टात आणले. मिशेलविरुद्ध पहिल्या गेममध्ये

४-७ अशा पिछाडीनंतर सिंधूने ७-७ अशी बरोबरी साधली. मात्र, मिशेलने पुन्हा सलग चार गुण घेत ११-७ अशी आघाडी मिळवली.



लगोलग सिंधूने चार गुण घेत बरोबरी साधली. त्यानंतर मात्र् गेम बरोबरीतच राहिला. अखेरच्या टप्प्यात २०-२० अशा बरोबरीवर मिशेलने सलग दोन गुण घेत गेम जिंकला. दुसऱ्या गेममध्ये सिंधूने ४-२ अशी सुरुवात केली. मात्र, नंतर मिशेलने गुणांचा सपाटा लावत १२-६ अशी मोठी आघाडी घेतली. सिंधूने मग आपल्या उंचीचा फायदा उठवंत ताकदवान स्मॅशेसचा सरेख वापर करत पाच गुण मिळवले आणि वापर करत पांच गुणा मळवल आण पिछाडी १४-१२ अशी भरून काढली. सिंधूने १८व्या गुणाला बरोबरी साधली आणि आपला चांगला खेळ सुरू ठेवत दुसरा गेम



सुरुवातीच्या बरोबरीनंतर मध्याला ९१-७ अशी आघाडी मिळवर्ल होती. यानंतरही मिशेलने झंज सोडली नाही आणि १३-१३ अशी बरोबरी साधली. ही बरोबरीची लढाई १८-१८ गुणांपर्यंत कायम राहिल्याने हा गेमही लांबण्याची चिन्हे दिसू लागली. मात्र, सिंधूने पुढील चारपैकी तीन गुण घेत . चर्षपूर्ण विजय मिळवला.

परुषांमध्ये जागतिक क्रमवारीत २४व्या स्थानावर असणाऱ्या श्रीकांतची गाठ आता चीनच्या १७व्या स्थानावरील लु गुआंग झुशी पडणार आहे. लु याने भारताच्या एच. एस. प्रणॉयचे आव्हान २१-१७, २१-१७ असे संपुष्टात आणले.

#### गुजरात जायंट्सचा पहिला विजय

नवी दिल्ली : कर्णधार बेथ मनी नवा दिल्ला : कणशिर वर्थ भूना (५१ चेंडूंत नाबाद ८५) आणि लॉरा वोल्व्हार्ड (४५ चेंडूत ७६) या सलामीच्या फलंदाजांच्या अप्रतिम कामिंगरीच्या जोरावर गुजरात जायंट्सने बुधवारी महिला प्रामियर लीग (डब्ल्यूपीएल) ट्वेन्टी-२० क्रिकेटच्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुचा १९ धावांनी पराभव केला.

'डब्ल्यूपीएल'च्या या हंगामातील गुजरातचा हा पहिला विजय ठरला. यापूर्वीच्या चार सामन्यांत त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता. या सामन्यात गजरातने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ५ बाद १९९ अशी धावसंख्या केली. प्रत्युत्तरात बंगळूरुला ८ बाद १८० धावांवर रोखले. बंगळूरुच्या जॉर्जिया वेस्हॅमने (२२ चेंडूंत ४८) एकाकी झुंज दिली.

नवी दिल्ली : ऑलिम्पिक पात्रता आणि आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी होणाऱ्या कुस्ती निवड चाचणीकरिता मल्लानी आपल्याच राज्याकडून खेळणे अनिवार्य असेल, असे भारतीय कुस्ती महासंघाने (डब्ल्यूएफआय) स्पष्ट केले आहे.

या दोन्ही चाचणी स्पर्धा एकाच वेळेस १० मार्चपासून नवी दिल्लीत होणार आहेत. चाचणीत एका मल्लाला एकापेक्षा अधिक वजनी गटातून

# आता सरकारी नोकरीसाठी पात्र

खेलो इंडियातील पदकविजेते

**ಹोकसता** 

पीटीआय, नवी दिल्ली

मंत्रालयाच्या आयोजित करण्यात येणाऱ्या खेलो इंडिया स्पर्धेतील पदकविजेत्या खेळाडुंना आता शासकीय सेवेसाठी पात्र धरण्याचा निर्णय क्रीडा मंत्रालयाने घेतला असून, केंद्रीय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकुर यांनी

बुधवारी याबाबतची घोषणा केली. ''तळागाळातील गुणवत्ता शोध करण्याचे काम खेलो इंद्रिया स्पर्धा करते. त्यानंतर त्यांची पुढील जबाबदारी शासनाची असते. या गुणवत्तेचे पालनपोषण आणि त्यांना खेळात कारकीर्द घडविण्यासाठी पाठबळ देण्याच्या दृष्टिकोनातन शासकीय सेवांची साथ खेळाडुंना बुद्धिबळपटूंना दिलासा

षुरिष्ठचणचट्टा स्वराह्म आतापर्यंत बुद्धिबळ खेळासाठी ठोस असे निकष नव्हते. नव्या आदेशानुसार आता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ स्पर्धेसाठी स्यष्ट निकष निष्टियत केले असून, त्यांनाही समान सुविधा निश्चित

विभागाने क्रीडा मंत्रालयाशी चर्चा करून शासकीय सेवा शोधणाऱ्या खेळाडूंच्या पात्रता निकषात सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार आता खेलो इंडिया युवा, विद्यापीठ, पॅरा आणि हिवाळी स्पर्धांमधील पदकविजेत्या खेळाडंना शासकीय सेवेसाठी पात्र धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला

अशी माहिती अनराग ठाकूर यांनी 'एक्स'वरून दिली. केवळ याच स्पर्धा नाहीत त्र,

शासनाने आता राष्ट्रीय शालेय स्पर्धेत यश मिळवणाऱ्या खेळाडूंनाही शासकीय सेवेसाठी पात्र धरण्याचा निर्णय घेतला आहे आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्पर्धेतून कनिष्ठ गटातही प्राविण्य मिळवलेले खेळाडूही या सेवेसाठी पात्र धरण्यात येणार आहेत. अर्थात, यासाठी खेळाडूंच्या उपलब्धीची काटेकोर छाननी करण्यात येणार आहे. यासाठी खेळाडूंची पात्रता प्रमाणित करणारी ँ प्रमाणपत्रे देण्यासाठी अधिकृत संस्थांच्या अधिकारांत सुधारणा करण्यात आली आहे.

## मल्लांनी आपल्याच राज्याकडून खेळणे अनिवार्य!

भारतीय कुरती महासंघाचा ऑलिम्पिक, आशियाई चाचणीसाठी निर्णय

सहभाग घेण्याची मुभा असेल. मात्र, त्याने आपल्याच राज्याचे प्रतिनिधित्व करावे अशी 'डब्ल्यूएफआय'ने अट घातली आहे.

हंगामी समितीने जयपूर येथे घेतलेल्या वरिष्ठ गटाच्या राष्ट्रीय स्पर्धेत अनेक मल्ल वेगवेगळ्या राज्यांकडून

खेळले होते. मात्र, आता होणाऱ्या निवड चाचणीत मल्लांनी आपल्या राज्याची ओळख पटविण्यासाठी डब्लूएफआय'चे परवाना पत्रक, जन्म दाखला आणि आधार कार्ड सादर करणे आवश्यक आहे, असेही 'डब्ल्यूएफआय'ने आपल्या

प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे. ''जयपूर येथील स्पर्धेत हरियाणाचे काही मल्ल अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम या राज्यांचे प्रतिनिधित्व करत होते. मात्र, हे योग्य नाही,'' 'डब्ल्यूएफआय'च्या सूत्राने

### गुकेश-प्रज्ञानंद लढत बरोबरीत

प्राग : भारताचा ग्रँडमास्टर आर. प्रानं : भारताचा ग्रंडमास्टर आर. प्रज्ञानंदला पटावरील भक्कम स्थितीनंतरही प्राग मास्टर्स बुद्धिबळ स्पर्धेच्या सातव्या फेरीत आपला सहकारी डी. गुकेशविरुद्ध बरोबरीवर समाधान मानावें लागले.

#### प्राग मास्टर्स बुद्धबळ स्पर्धा

पांद्रऱ्या मोहऱ्यांनिशी खेळणाऱ्या प्रज्ञानंदने सुरुवातीपासून अचूक चाली रचताना गुकेशवर दडपण आणले होते. ३७व्या चालीत प्रज्ञानंदला विजयाची संधी होती, पण याचा फायदा करून घेण्यात तो अपयशी ठरला. यानंतर गुकेशने खेळात सुधारणा केली आणि ९१ चालींअंती ही लढत बरोबरीत सोडवली.

उझबेकिस्तानच्या नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव्हने जर्मनीच्या व्हिन्सेन्ट केमेरला पराभूत करत गुणतालिकेत आपले अग्रस्थान भक्कम केले. विदित गजराथीने पन्हा निराशा केली. राणच्या परहम मघसूद्लूने पराभृत केले.

. ू.. ..... स्पर्धेच्या आता केवळ दोन फेऱ्या शिल्लक असून अग्रस्थानावरील अब्दुसत्तारोव्हच्या खात्यावर पाच गुण आहेत. मघसूद्लू ४.५ गुणांसह दुसऱ्या स्थानी आहे. प्रज्ञानंद आणि चेक प्रजासत्ताकचा एनगुएन थाय डे व्हॅन हे संयुक्तरित्या तिसऱ्या स्थानावर असून त्यांचे ४ गुण आहेत.

#### पॅरिस सेंट-जर्मेन उपांत्यपूर्व फेरीत

जिंकला. तिसऱ्या गेममध्ये सिंधूने

**सॅन सेबॅस्टियन (स्पेन) :** किलियन एम्बापेच्या चमकदार कामगिरीच्या जोरावर पॅरिस सेंट-जर्मेन संघाने रेयाल सोसिदादवर मात करत चॅम्पियन्स लीग फुटबॉलच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. उपात्यपूर्व फरात प्रवश कला. एम्बापेने केलेल्या दोन गोलमुळे पॅरिसने उपउपांत्यपूर्व फेरीच्या दुसऱ्या टप्यातील सामन्यात सोसिदादवर २-१ असा विजय मिळवला. पॅरिसने . पहिल्या टप्प्यातील सामना २-० असा जिंकला होता. त्यामुळे त्यांनी ही लढत एकूण ४-१ अशा फरकाने जिंकली. बायर्न म्युनिकनेही आगेकूच केली.



दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (भारत सरकार उपक्रम)

भारत सरकार उपक्रम) मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ३, ६ वा मजला, टाऊन सेंटर, टॉवर-१, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०००५९ फोन नं: -०२२-४१०४२२०१

सर्व पॉलिसीधारक/हित पारक अणि सामान्य जनतेला सुचित करत आहोत कि महाराष्ट्र राज्यामध्ये विश्व मुंबर्स <mark>केतीय क्रायतिल - ३ अतार्त</mark>त वेणाऱ्या खातील क्रायतिला सुपरितिक केते जात आहे आणी आंडा-दरी, ए मिला (पारस्यात पिना में बास न २०६५) चारा अनुसार हि. ० में ३ ०३ इर पासून तेमून काम सुरू केते जाईल, पॉलिसी/दावे किंता अन्य सेता खातील क्रीकामध्य द्यातिकीला नार्वित कार्यास्थ्य द्रियति कार्यास्थ्र स्थातिला अन्य सेता खातील

पुनगाठत हाणाऱ्या	कायालय	सवा प्रदान कल्या	सपक क्रमाक व इ-मल आयडा
कार्यालयाचे नाव	संकेतांक	जातील	
डायमंड व्यवसाय		एमसीडीओ ९,	श्री. धीरज बी नायर, वरिष्ठ विभागीय प्रभारी
कार्यालय,		ऑफिस कोड :	फोन : २२६१७३३५/२२६१७३३६
५०४ , जन्मभूमि	233200	१३२७००,	मोबाईल : ९८९२१२४८०१,
चेंबर्स, ५ वा मजला ,		३ रा मजला, एसबीआई	ईमेल :
२९ , वालचंद		एनेक्सी बिल्डिंग, फोर्ट ,	dhiraj.nair@orientalinsurance.co.in
हीराचंद मार्ग,		मुंबई - ४००००१	& दांडेकर अनुप्रिया अंजन, उपव्यवस्थापक,
बॅलार्ड इस्टेट,		-	मोबाईल : ९८९२९७८४१७
मुंबई- ४००००१			ईमेल : dandekar.anupriya@
			orientalinsurance.co.in

सेंट्रल बेंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बेंक ऑफ इंडिया Central Bank of India विकास कार्यालय प्रवास कार्यालय १

#### स्थावर मालमत्तांच्या विक्रीसाठी विक्री सूचना ए-फोर्समेंट) रुल्स, २००२ च्या नियम ८(६) च्या परंतुकासोबत वाचावयाच्या दी सिक्युरिटायजे ।ान्त्रियल ॲसेट्स ॲण्ड ए-फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट २००२ अंतर्गत स्थावर मतांच्या 1

प्रमुख्य कर प्रकार प्रियम अस्ति प्रजिष्ठ प्रकारिमेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ऑक्ट २००२ अतरात स्थायर पराध्या वाकास्थव कर्मा किया प्रकार कर्मा प्रकार कर्मा प्रकार प्रकार प्रकार कर्मा प्रकार कर्मा कर्मा प्रकार कर्मा कर्मा प्रकार कर्मा कर्मा प्रकार कर्मा कर्म करा कर्मा करा कर्मा करा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा करा कर्मा कर्म स्थावर मालमत्तांचे वर्णन

शाखेचे नाव आणि शाखा व्यवस्थापकांचा/	कर्जदाराचे/कर्जदारांचे/मालकाचे/	मालमत्तेचे तपशील
प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचा संपर्क क्रमांक	आणि हमीदाराचे/हमीदारांचे नाव	
निजामपुरा शाखा प्रमुख/	कर्जदार- मे. सनलाइट एक्स्ट्रजन	लोडा त्रिमेरो, अपोलो मिल कम्पाऊंड, सदनिका क्र.
प्राधिकृत अधिकारी :	प्रा.लि. आणि यशवंत भंवरलाल	२६०२, २६ वा मजला, एन. एम. जोशी मार्ग, महालक्ष्मी,
सपन गोएल	जैन, अनिता यशवंत जैन व	मुंबई ४०००११ येथे स्थित गृह मालमत्ता, बिल्टअप
मोबाइल :	अन्य.	क्षेत्रफळ १३९.६२ ची.मी. (अदमासे) अधिक ३३.४५
८९८००१५७८३/०२६५-२४१४४७२		चौ.मी. (अदमासे) क्षेत्रफळाची कार पार्किंगची जागा. श्री.
	आणि अनिता यशवंत जैन	यदावंत बी. जैन आणि श्रीमती अनिता यदावंत जैन यांच्या
		मालकीची सीमाबद्धता: उत्तरेला: मे. माइक्रोटेक
		कन्स्ट्रक्दान प्रा.लि. यांची जमीन, दक्षिणेला: रस्त्यालगतची
		खासगी मालमत्ता, पूर्वेला: ६०' डीपी रोड, पश्चिमेला:
		मे. माइक्रोटेक कन्स्ट्रक्शन प्रा.िंठ. यांची जमीन.

	रीख आणि देव रक्कम		राखीव किंमत/इरठे/बोली वृद्धी रक्कम
डिमांड नोटीसची तारीख - ०५.०६.२०१६			
कोटी एकवीस लाख आठ हजार एकशे सल्ब	।।ण्णव फक्त अधिक त्यावर आकारले	ले व्याज व	इस्ठे : रु. ५५,००,०००/-
असल्यास त्यातील वसुली, वजा)			बोली वृद्धी मूल्य - रु. ३,००,०००/-

ाबारा पुराणी तरीय वा बेळ : १६,०३,२०२४ प्रकाशी १० ते दुसारी ३ वावरणाव्या दरमान्य । स्वकृत बोलेकारो ई-िक्तावाच्या सामार्थ्युणी एसप्यर्टामेक्ट बोले-पूर्व दर्द आ बारणी, एसप्यर्टामेच्या सेक बालामा द्वाइ बोलेकारो ई-िक्तावाच्या सामार्थ्युणी एसप्यर्टामेक्ट बोले-पूर्व दर्द आ बारणी, एसप्यर्टामेच्या सेक बालामा केलिक्ट्रामेच्या पांच्या केलिक्ट्रामेच्या स्वाधी केलिक्ट्रामेच्या स्वाधी क्षा स्वाधी केलिक्ट्रामेच्या सेकिक्ट्रामेच्या स्वाधी केलिक्ट्रामेच्या सेकिक्ट्राम्च स्वाधी क्षा स्वाधी केलिक्ट्रामेच्या सेकिक्ट्रामेच्या सेक

करती.

कारती.

श्री कार्याचा वायसी लिकिटेड क्षिण क्षांत्र आविकार (CIN L31900MH 1992PL C067802) व्यांत्र आविकार पान रचना प्रतस्त (त्रांत्र प्रतान क्षांत्र अविकार क्षांत्र अविकार क्षांत्र आविकार वायस्य (त्रांत्र प्रात्त्र क्षांत्र अविकार क्षांत्र कष्टा क्षांत्र क्षांत्र

होण्यावादी आलील विशेष ज्वसावाकांशता त्याची सान्तता पणः

• कंपांचीने वर्वत संस्तालक राज्युः शी. अधिक केविया (डीआवादाः • ००७२९५९) यांची
स्वृत्ती.

• कंपांचीने अवतं संस्तालक राज्युः शी. अधिक केविया (डीआवादाः • ००७२९५९) यांची
स्वृत्ती.

• कंपांचीने ज्वस्तालक्ष्मिय संचालक राज्युः शी. संहित्कुमार प्रिधेशताल काव्या (डीआवादाः

• ००००३४१९) यांची पुत्तिवृत्तीः

गाउण्याचने काम, केव्यक्त कर्मवृत्तिक पद्धानीते यावतः करून, कंपांची ट्याचा सत्वातः पृत्ताः

गाउण्याचने काम, केव्यक्ति क्षांचीन प्रवादीनों, युध्यादः, ६ मार्च, १०२५ रोजी पूर्ण केत्रो आहे.

कर्मांचीन्य पास्त्यांना ज्यांची नोत्रं विशामिद्धानीत्र होट्यार्गियम् विवृत्तमे संतिवृत्तम् विशामिद्धानीत्र कर्मांचीन्य सार्वाल्याः

कर्मांचीन्य पास्त्यांना ज्यांची नोत्रं विशामिद्धानीत्र होट्यार्गियम् विवृत्तमे संतिवृत्तम् विशामिद्धानीत्र कर्मांचीन्य स्वत्यांना सार्वालयोः

कर्मांचीन्यां पास्त्यांना ज्यांचीन्यां विशामिद्धानीत्र होट्यार्गियम् स्वित्यांना स्वत्यांना स्वत्यांना सार्वालयोः

कर्मांचीन्यां पास्त्रित्तां सार्वालयोः सार्वालयां विशामिद्धानीत्र सार्वालयां विशामिद्धानां विशामिद्धानां विशामिद्धानीत्र सार्वालयां सार्वालयां विशामिद्धानां सार्वालयां विशामिद्धानीत्र सार्वालयां सार्वालय डेपॉझिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') च्या <u>www.evoting.nsdl.com</u> वेबसाइटवर देखील

या सहस्रमंत्री जाते सभासरांत्र्या जॉल्पीपश्ये / लाभार्थी पालकांत्र्या याटीपश्ये कर-थॉ

ज्या सदस्वांची जावे सम्प्रादांच्या संविध्योद्धे (जामावी मानकांच्या सर्वाचारी कर-अपेट तार्वाचा आत्री होती, तेव भार जाया स्वाचार स्वाच्या स्वाचेन समूद्र के लेक्स वास्तरिक उत्याद सम्वद्धा-कारी सारा क्रण्याचेच्या रिपोर्ट ई-लोटिंग्यारे उत्यादा स्व केयास पाठ असतीत. क्ष्मास्वाच्या सर्वाच्या अधिकार कर-अपेट तार्वाचार तार्वाचार केया स्वाच्याच्या स्वय्य-सार्वाच्या स्वाच्या होत्या हो असंस्था प्रमाणा नार्वाचार कर-अपेट तार्वाचार स्वाच्या स्वय्य-सार्वच्य-सार्वाच्या स्वय्या केयाच्या व्यव्याची हे उत्याद सर्वाच्या स्वयाचा केयाच्या अध्यादा कर्तावच्या स्वय्याच्या सरस्याता सिंग्य ई-लोटिंग सुविधा प्रवाद करव्याच्या उद्धारी एएसहर्वीय्य चौ स्वाच प्रवत्य केती आहे. रिपोर ई-स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वय्याच्या स्वय्याच्या स्वय्याच्या स्वय्याच्या स्वय्याचा स्वय्या सिंग्य ई-लोटिंग स्विच्या प्रवत्य करव्याच्या उद्धारी एएसहर्वीय्य चौ स्वच्या स्वय्याच्या स्वयः स्वयः

थी. अनप वैभव सी. खत्रा. में. खत्रा औंड कंपनी चे भागीदार. कार्यरत कंपनी सचिव. यांची टपा . ।द्वारे ई-मतदानाची तपासणी करण्याकरिता तपासणीस म्हणून नियुक्ती करण्यात आर

..... पाल मतदानाचा निकाल मंगळवार. ९ एप्रिल. २०२४ रोजी किंवा त्यापवीं जाहीर केला जाई आणि कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात नोटीस बोर्डवर प्रदर्शित केले जाईल. निकाल कंपनीच्य वेबसाइटवर, एनएसडीएल च्या वेबसाइटवर देखील अपलोड केला जाईल आणि एनएसई आणि बीएसई ला देखील कळवला जाईल.

भाएसइ ला बद्धाल कळवला जाइल. रिमोट ई-व्होटिंगशी संबंधित कोणत्याही शंका/तक्रारींच्या बाबतीत, तुम्ही भागधारकांकरि बारंबार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि <u>www.evoting.nsdl.com</u> च्या डाउनलो विभागात उपलब्ध भागधारकांसाठी ई-व्होटिंग वापरकर्ता पुस्तिका पाहू शकरा किंवा ०२२ ८८६ ७००० आणि ०२२ - २४९९ ७००० कॉल करा किंवा <u>evoting@nsdl.co.in</u>

बनता पाटना वास्त्रवानी अधाप त्यांचा हूँ-मेल पता नोंडणीकृत केलेला नाही, ते टपाल मतदान सूचनेत न केल्याप्रमाणे प्रक्रियेचे अदूसरण करूर शकतात. वायुट्टे टपाल मतदान सूचनेती संबंधित कोणल कोषण्या वार्बाती कर्ता च्या स्वत्यांचे वास स्वत्यांच्या नोंडणीच्यों हो लाघोंची कोणलं संबंध्यांच्या बार्बतीत कर्ता च्या स्वत्यांच्या वास स्वत्यांच्या नोंडणीच्यों हो लाघोंची संस्त्रता सूचना प्राप्त झाली नसेल, तो/ती investorrelations.rrwl@rrglobal.com वर लिह् शकतो

राम रत्ना वायर्स लिमिटेड करीत

नं. डेप्यू चीफ इंजि. / सीपीडी / ॲडव्हाटॉइज / ४६ / एर्हे-०५ दिनांकित : ०६.०३.२०२४ ात्रॉ. एम.सी. (मध्यवती खोदी खाते) यांचे कार्यालय, भायखळा (प.), मुंबई-४०००११

## बृहन्सुंबई महानगरपालिका

विशन	उप प्रमुख अभियंता (यांत्रिकी व विद्युत) मध्यवतीं खरेदी खाते
हाटेंडर्स संदर्भ क्र.	विषय
	विविध बीएमसी हॉस्पिटल्सच्या ॲनेस्थेसिया डिपार्ट.च्या वापराकरिता ७ वर्षे सीएमसी व ३ वर्षांची वॉरंटी
	तसेच मानक उपकरणांसह फ्लेक्झबल इन्ट्यूबेशन विहडिओ एन्डोस्कोपचा ( १६ नग ) पुरवठा, प्रतिष्टापन,
	चाचणी व कार्यान्वयन.
	निविदा क्र. डेप्यू. चीफ इंजि. / सीपीडी / ६१ / टीडीआर / ए.ई-०५, २०२३-२०२४ ची
024 MCGM 1026317 1	विविध बीएमसी हॉस्पिटल्सच्या वापराकरिता ७ वर्षे सीएमसी व ३ वर्षाची वॉरंटी तसेच मानक उपकरणांसह
	अल्ट्रा साऊंड सोनोग्राफी मशिनचा (१७ नग) पुरवठा, प्रतिष्ठापन, चाचणी व कार्यान्वयन.
	निविदा क्र. डेप्यू. चीफ इंजि. / सीपीडी / ६२ / टीडीआर / ए.ई-०५, २०२३-२०२४ ची
	केईएम हॉरियटल्सच्या सीव्हीटीएस हिपार्ट.च्या वापराकरिता ७ वर्षे सीएमसी व ३ वर्षाची वॉरंटी तसेच मानक
	उपकरणांसह नाबट्रिक ऑक्साईड डिलिव्हरिंग अँड मॉनिटरिंग सिस्टमचा (१ नग) पुरवठा, प्रतिष्ठापन,
	चाचणी व कार्यान्वयन.
	निविदा क्र. डेप्यू. चीफ इंजि. / सीपीडी / ६३ / टीडीआर / ए.ई-०५, २०२३-२०२४ ची
024 MCGM 1026365 1	बीवायएल नायर हॉस्पिटल्सच्या नेफ्रॉलॉजी डिपार्ट.च्या वापराकरिता ७ वर्षे सीएमसी व ३ वर्षांची वॉरटी
	तसेच मानक उपकरणांसह <b>बॉटर ट्रिमेंट प्लान्ट</b> चा ( <b>१ नग</b> ) पुरवठा, प्रतिष्ठापन, चाचणी व कार्यान्वयन.
	निविदा क्र. डेप्यू. चीफ इंजि. / सीपीडी / ६४ / टीडीआर / ए.ई-०५, २०२३-२०२४ ची

ई-प्रापण निविदा सूचना

कार्यान्ययः हेम्यू चीक इति , सीपीधी / ६५ / टीडीआर / एई-०५, २०२३-२०२४ ची केदरेग हास्पिटलच्या पंजीतीची हिम्मद्रे ज्या क्यासकरिता ७ वर्षे तीसमत्ते व ३ वर्षाची चारेटी तसेच मान् उपकरणांचा र्राविक्ट क्यांक्टिय सिरस्टाचा (३ नग) पुरावत्, प्रीक्टामर, मारणी व कार्यान्यस्त, मिलिख क्रा हेम्यू चीक स्त्रे ना सीची हैं उस्ते देती क्षारा पहुने क्यास्त्र क्रास्त्र प्रक्री क्रास्त्र प्रकृत, २०३३-२०२४ ची विरोध हिम्मद्रन्तरूप पंजीतीची हिम्मद्रे ज्या वास्त्रकरिता ७ वर्षे तीसमत्ती व ३ वर्षाची चीरेटी तसेच मान 2024 MCGM 1026513 ुनावादी कर डप्यू भोषक शिंव. ... मीपीची ... ६६ ... टीडीआ ग. ए. १६ -०५, २०२६ २०२४ घी त्रीया हॉस्पिटल्यामा वैर्तालीची डिप्पर्ट. ज्या व्याप्तकतिता ० वर्ष सीएमसी च २ वर्षाची वार्टित सीचे इंपर्कलाशंतर पुरुषली ऑटीमेट्ट देरिटी सावकांट्रीयमा (७ वता १ पुरवा), प्रतिक्रपन, पाणणी व कार्यो-विशेदता कर ख्यू भीषक शिंव. .. सीपीची .. १६० ... टीडीआ ग. ए. १६ -०५, २०३६ २०२४ घी प्रतिक्रपा कारियल्यामा प्रत्यक्तास्त्रोलीची डिप्पर्ट ज्या वारप्तकतित ० वर्षाचीस्त्रास्त्री च वर्षाची वार्टित प्रतिक्रपा कार्टियल्यामा क्ष्मीपर्ट्सी अनीवायक्तास्त्रास्त्र (२ का. १ पुरवा), प्रतिक्रमन, प्राणी व कार्यान्यवन निविद्य कर ख्यू भीचा शिंत. .. मीपीची ... ८. .. टीडीआ ग. ए. १६०., २०३६ २०४५ व्याप्ति वीचायल्यान नावर व एलटीयण्यी हॉस्पिटलस्या सीकीटीएस डिप्पर्ट ज्या वारप्रकर्तिता ७ वर्षे सीएससी व्यापी वार्टित कोचा मानक उपकर्णालंड इन्द्रा आवीटिक बसून पंपचा (२ का.) पुरवा), प्रतिक्रमन, प्रवार्थना 2024 MCGM 1026532 2024 MCGM 1026542

निविदा क्र. डेप्यू. चीफ इंजि. / सीपीडी / ७० / टीडीआर / ए.इं-०५, २०२३-२०२४ ची बीएमसी डिस्पेन्सरिज व हॉस्पिटल्सकरिता हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब टाकरे पॉलिक्लिनक (' 2024 MCGM 1026569 डायन्यास्टिक श्रेड कन्सल्टेसी सर्विसंस) करिता ईंग्यूनरी ओपीडी इंश्वियमेट सेट्सचे प्राप्ता निवंदत क्र. डेप्यू. चीफ ईंजि. / सीपीडी / ७१ / टीडीआर / ए.ईं-०५, २०२३-२०२४ ची विवंध हास्पिटल्सच्या पॅथॉलॉंजी डिपार्ट.च्या वापराकरिता ७ वर्षे सीएमसी व ३ वर्षाची वॉरिटी तसेच म करणांसह क्रियोस्टेंटचा ( ७ नग ) पुरवटा, प्रतिष्ठापन, चाचणी व कार्यान्वयन. वदा क्र. डेप्यू. चीफ इंजि. / सीपीडी / ७३ / टीडीआर / ए.इं-०५, २०२३-२०२४ ची

०७.०३.२०२४ १२.०३.२०२४ रोजी १६:०० वा पासून ते ०४.०४.२०२४ रोजी १६:०० वा "मिदिवकारोगों नोट प्याची की, या निविद सुचनेसंबंधित निर्मामत केलेले कोमतेही शुद्धिपत्र केवळ बीएम पोटेलवर व महाटेंडर पोटेलवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. कोमतेही शुद्धिपत्र स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसि त्वे जवार जाती
- विजेशी समेरी आधीरन वर्षण्यस्य हॉल, ए.प्या ही ज्या वर्षणंत्रपालका, दूसरा मनता, प्राप्तियस्य हेर विजेशी समेरी आधीरन आधीरन प्राप्तिस्य स्वाप्तिस्य स्वेत्रपालका स्वाप्तिः होत्यः स्वाप्तिः स्वापतिः स वं-बोली सभेची तारीख

MCGM 1026365 MCGM 1026504 2024 MCGM 1026504 1 2024 MCGM 1026554 1 विच्या आयडी करिता 2024 MCGM 1026513 1 2024 MCGM 1026532 1 2024 MCGM 1026542 1 2024 MCGM 1026569 1 १५.०३.२०२४ रोजी १५:०० वा 024 MCGM 1026600

intp://mahatenders.gov.in बीमती युवनना बार (नेटर (सहायक्क अधियंता-०५) मध्यवती कांदी खाते (२३) २३००३६१, विरावा: ऋ.२०/ eUS.pd/dameg.gov.in अध्यतिर कारण न देवा सर्व किया ओमातीरी ई-निवान क्रमें संपर्क व्यक्तीचे नाव ए) ऑफिस नं. बी) ईमेल आयडी पीआरओ/३२३२/एडीव्ही/२०२३ झाडे लावा, झाडे जगवा


#### कोटक महिंद्र बँक लिमिटेड

्रिक्त स्वार्थिक स्वार्यिक स्वार्यिक स्वार्यिक स्वार्यक स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्यक हो सत्तर सहा आणि पैसे अडतीस) ०१.३-२०२४ पासून देव किंवा वसूनी होईचर्यत दरमहा @ ११.५०% दराने पुढील व्याजासह, केएमबी तचदेवा अँड सन्स ग्रईस मिल्स लि. आणि हमीदार श्री. अशोक सचदेवा, श्रीमती इंदू सचदेवा, श्री. विनोद सचदेवा आणि श्रीमती वनिता सच

अनु. क्र.	कर्जदार/ गहाणदाराचे नाव	लिलाव करण्यात येणाऱ्या स्थावर आणि चल मालमत्तेचे वर्णन आणि	बोली सादरीकरणासाठी शेवटचा दिनांक	राखीव मूल्य (रु.)	इसारा रक्कम (इरठे) (रु.)	बोझा
\$	श्री. अशोक सचदेव	सदनिका क्र. २०,४ था मजता, इंडिया हाऊस क्र. ४, ऑगस्ट क्रांती मार्ग, केम्पस कॉर्नर, मुंबई ४०००२६ मोजमाप साधारणपणे ११५५ ची. फू.	१५.०४.२०२४ रोजी ५.०० वा. पर्यंत	५,००,००,०००/- (रु. पाच कोटी मात्र)	५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष मात्र)	सोसावटी देणी मार्च २०२४ अनुसार रू.
2	सचदेव अँड सन्स राईस मिल्स प्रा. लि.	कार्यात्य क्र. ९ माश्रीक बिल्डींग, फ्रेंड्स युनियन प्रिमायसेस की ऑपरेटिंग्ड सोसायटी लि., २ रा मजला, २२७, पी. डी.मेलो रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१ मोजमाप साधारणपणे ११५५ ची. फू.	१५.०४.२०२४ रोजी ५.०० वा. पर्यंत	२,२५,००,०००/- (रु. दोन कोटी पंचवीस लक्ष मात्र)	२२,५०,०००/- (रुपये बावीस लक्ष पन्नास हजार मात्र)	सोसायटी देणी मार्च २०२४ अनुसार रु.









Providing and fixing of cantilever gantry sign board, Road direction board and guide map in industrial Area site-4 Sahibabad, Chaziabad Providing and fixing signage board & road safety devices at I.A. Loha Mandi, Dist. Chaziabad.

Providing and Fixing of Cantileve gantry sign board, Road Direction Board and Guide Map in Industria Area Bulandshahar road, Ghaziabar

Area Bulandshahar road, Ghaziaba Providing and fixing signage boan & road safety devices at I.A. Soutl Side G.T. Road, Distt- Ghaziabad

द्वारा की जाएगी । बिक्री के लिए संपत्तियों का मूल विवरणः स्थान / पता / क्षेत्र

विभिन्ने व्याप्त / भवा / शेवा / शेवा विभावता है। विभावता विभा

भी के नियम और शर्तें और कॉर्पोरेट दे

nala & RCC

52.6

22.65

27.93

16.94

आवेदन करने और दस्तातेज जब करने की अंतिम तिथि 21 मार्च, 2024 बोर्चाटना की भोषण की तिथि 25 मार्च, 2024 निरोक्षण, नीकामी के तहत्त पंचीर का उत्तित परिभग 102 वर्षेत्र, 2024 हुंप्रधाण, नीकामी के तहत्त पंचीर का उत्तित परिभग 102 वर्षेत्र, 2024 हुंप्रधा याम करने की बीरान निर्धा 2024 वर्षेत्र, 2024 नीलामी की तिथि और समय: 08 वर्षेत्र, 2024, सुबत 51 30 बचे से शाम 4.30 बचे तक

(प्रत्येक 5 मिनट के असीनित विस्तार के साथ) ननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नहें दिल्ली द्वारा नियुध्ध स्वास्थ्यक के द्वारा परिसमाप टेट का हिस्सा बनने वाले स्पेसविज्ञ इंप्पेक्स प्राइटेट लिपिटेड (परिसमापन में) के स्वासि मी संपत्तियों की विकी (विकी अमोहरसावरी द्वारा ई-नीलामी स्टेटफॉर्म https://www.eauctions.co

दिनांक 28.03.2024 को 1.00 बजे या इसके पत्रध

उप महाप्रबन्धक (सिविस), निः

ार की संपत्ति का विवरण **"ई—नीलामी प्रक्रिया** 

ा में विवरणितानुसार ब्याज की व खाता सं. LNSKR04018-19 का प्रतिप्रकारत खडते में विकास पारा 13(2) के अंतर्गत को गयी मांग के अनुसारान में उनका मीतिक अधिवारण कर रिख्य वा, और ज्यकि वक्त उक्त निकारणी के नियम 8 के साथ पिता उक्त अधिनेयम की पारा 13(4) के अंतर्गत प्रदार शक्ति के प्रयोग प्रस्ताय रखते हैं। अतः निम्न तारिका में यंगित संगति(यों) का विक्रय, येथ पोटेश: https://www.benkor

ऋण खाता धारक का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राज्ञि तथा मांग सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य इंएमडी संविदा चृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अन्तिम तिथि
(क) मोहम्मद नदीम (कर्जदार) (ख) नसरीन बानो (सह-कर्जदार)	सम्पति पर्लट में, उठंड, तृतीय तल छत के अधिकार के बिना, क्षेत्रफल माप 1010.00 वर्ग फीट, जयपुर गेड हाइट्स, सामने इंडिस्ट्रिल एरिया, जयपुर गेड, सीकर, तहसील एर्थ जिला सीकर (राजस्थान) में रिश्चत	रु. 28,49,346 तिथि 05.03.2023 तक मांग सूचना की तिथि : 06.09.2023	表 27,50,000/- 表 2,75,000/- 表 10,000/-	06.04.2024 को 11:00 बजे पूर्वा. से 02:00 बजे अप.	05.04.2024 को 5.00 बर अप. तक

तों का एत्ट्य इ-नातन का तार्ट्य में पातन तेशक्त के किया के कार्य के कार्य के किया है। को नेतार्ट्य इ-नातन का तार्ट्य में पातन तेशकी कार्ट्य कार तार्ट्य के साथ कर पातन तार्ट्य कार्य कार्य कार्य कार्य को नेतार्ट्योक्टिक की जायों के पातन तार्ट्य कोई हो, को कार्य और तशत के बाब बहुत दिना दिना जाया। इ. मार्ट्य केंद्र राज्यमा )

SMFG
Grihashakti
विकास के प्रसार प्रकार के प्रसार के प्

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रवर्तन सुरक्षाहित अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और सुरक्षाहित (प्रवर्तन नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के तहत

नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के तहत आंद्रोहासारी अभिनियम के तहत प्राविकृत अधिकारी एसएमएकजी इंडिया होग काइनेंस कंगनी लिमिटेड (पूर्व में पुनर्नन इंडिया होग माइनेंस करने लिमिटेड) (इसके बाद एसएमएकएकजी के रूपमें संदर्गित) है और धारा 15(12) के तहत प्रस्त लिम्प्रों का प्रयोग करते हुए मांग नोटिस (अंड) अभिनियम की धारा 15(2) के तहत निम्मितियित उध्यरकर्ताओं से उक्त मीटिस की प्राप्त की तारीख से 80 दिनों के भीतर नोटिस चुकाने का आहमान किया गया है।अधोहरताक्षरी का व्योशित मानना है कि उधारकर्ता डिमाट नोटिस की सेवा से वंब पर है है इसीलर पानित की सेवा नियमों के अनुसार विश्वकार और प्रकाशन द्वारा प्रमावित की जा रही है। मांग चुनना की विवरण नीचे दी गई है

ऋण खाता संख्या और उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता संपत्ति धारकों का नाम, जैसा भी मामला हो	सुरक्षित संपति / बंधक संपति का विकरण	मांग सूचना की तारीख यू/एस. 13 (2) और कुल ओ/एस.
होंग : 600138211322430 इरिता निश्रा, पत्नी श्री सतीस कुमार मिश्रा 2 सतीश गुमार मिश्रा पताः— निवासी, पलेंट नंबर श्री—1, तीसरी, बर्जिल प्लेंट नंबर 11, जनम मंगर गई दिल्ली — 110059	मशैंट नंबर बी-3, तीसवी मंत्रिक पर, खसरा नंबर क्रा/6 की छव के अधिकार के जाय, प्राम हरसतात दिल्ली ज्याय दिल्ली कीलोगी के बैस में शिवर है. जिसे दयाब तार रोज खेळ खेला, उपाम नगर नई दिल्ली -150000 के स्था में जाना जाता है, दिसस्की सीमा मिम्नानुसार है- पूढ़े - गली 10 कीट, पश्चिम- सड़क 30 फीट, उपार- पश्चैट नंबर 10, दशिक- एलीट मंबर 12!	रु. 17,29,234/- (संत्रह लाख उनतीस हजार दो सौ चाँतीस रूपये मात्र) 15.02
हैंगः 610839511309623 1. मनीश गर्ग पुत्र विमोद कुमार गर्ग 2. अरचनी कुमार गर्ग पुत्र विमोद कुमार गर्ग. पता— निवासी. 569/54, नीवरापार -3. शारतीय कॉलोनी, ज्योति किहार, कुजफक्तगर, उत्तर प्रदेश — 251001।	एक आयातीय घर गुन. संख्या 569/54, जिसका क्षेत्रकत 102 01 वर्ष गण है, त्यीट संख्या 3 शी घर गिर्मित है, जिससे व्यस्त गर्वस 1105 और 1100 शास्त्रिक है, जो मोहस्त्व गासिया कोंसोनी गांव- कुकरा मुजारकरनगर में स्थित है, जो इत प्रकार है- पूर्व भी रिक्ष का प्यंतिः, परिष्ण — नदग सभी स्टीट, एतर – चेंड 24 फिट, दक्षिण – राक्ष्रेश का प्रतिट।	15.02.2024 ७. 45.91,600 / - (पैतालीस लाख इक्यानचे हजार छह शी कपये मात्र) 15.02.2024 को, एनपीए दिनांक 05.02.2024
लैन: 617439511318410 1. इंप्रवर रिंह पुत्र पुरुत्तभाग सिंह 2. मीना देवी, पत्नी, इंप्यर सिंह थता— गिवास मकान नंबर 300, गळरा पट्टी बल्लू, कैंथल —1381171	220 वर्ग गज. = 07एम-2एस क्षेत्रकल बाता प्लॉट होंगे के गति 227,6000 भूमि माप में हिस्सा 03क-00एम खेवट नंबर बक्ष मिन क्लोगों नंबर 594 बस्ता गब्द 822-0) हैर गुम्बी कम आबादी किता 1 वर्ष 2019-20 के लिए प्राम बालू की जमाबदी देखें गांव बालू तहसील कलायत और जिला करवाल. में विका है।	22.02.2024 रू. 22.54,052/- (रुपये बाईस लाख बीसट हजार बावन मात्र) 22.02.2024 को, एनपीए दिनांक 05.09.2023
लेन: 611438311233245 1. सन्नी विजय कुमार 2. आशा. परनी विजय भारद्वाज, परा। – निवास. मकान नंबर 144. मायजी पब्लिक रकूल के पास, सैनी कॉलोनी, पानीपर, हरियाणा – 152(15)	200 वर्ग गज यानी 04 विस्ता (30%) की संपत्ति, पट्टी शाजप हान, जिल्ला पानीपता में रिश्वत है। सीमाएँ- पूर्व -जलवंत की संपत्ति, परिवरू-रमेश रामां की संपत्ति, उत्तर-शामतल की संपत्ति, वशिण-सडक	15.02.2024 रु. 11.28.621/— (ग्यारह लाख अझाईस हजार छह सी इक्डीस रुपये मात्र) 15.02.2024 तक एनपीए दिनांक 5.02.2024
	अभावकारी नाम- भागावकारी वार्थित वारकी का नाम- वार्थित भागावकार के नाम- वार्थित भागावकार के नाम- वार्थित भागावकार के नाम- वार्थित भागावकार के निर्माण किया नाम- वार्थित भागावकार किया उत्तराति का अभावकार किया उत्तराति का उत्तराति का अभावकार किया जिल्ला वार्थित वार्यित वार्थित वार्थित वार्थित वार्थित वार्यित वार्थित वार्थित वार्यित वार्थित वार्थित वार्थित वार्थित वार्थित वार्थित वार्थित वार्यित वार्यित वार्थित वार्यित वार्थित वार्यित	प्रकार प्रकार प्रकार के प्रकार के प्रकार कर किया किया कर किया कर किया किया किया किया किया किया किया किया

कारवनिकों को सजाह दी जाती है कि दे मांग नीटिस का अनुपालन करें और इस प्रकारण की शारिख से कह दिनों के मीतर लाए मां हीतिरिक मान, बार्जन पुल, सामा के साथ इसमें और प्रवस्त पीतिरक्षा मांग पाति का मुमानम करें। और पुमानम के बी सी साथ हाती हें वह पंत पंतास्त्री मांग दे कि एक्सएप्यूस्त में एक्स है को प्रवस्ता मांग पाति का प्रमान करें। को प्रमान का बी प्रति का सिक्त कर पूर्ण होती करना है जो पुसान मांग पात्र पात्र पात्र पात्र का का पात्र होती है। प्राच्या करना है को प्रवस्ता मांग पात्र है। पात्र मांग कर मांग के मांग करने हैं के साथ करने के दिन की मीतर का प्रमान करने के साथ करने के दिन की मीतर की पात्र है। कहा पत्ता की बीचल के मान के मांग के मांग करने का उसकार होगा, पिता मांग कर ने कहा के स्वी के मानम से या अधिराम और उसके तहत निमाने का प्रवस्ता करने का इसकार होगा, पिता मांग करने का इसकार होगा, पत्ता मांग के अधिकार हो पुराल्य करने का इसकार होगा, पत्ता मांग के अधिकार हो पुराल्य करने के हैं। एक्स एक्स को की बीच मांग का अधिकार सात्र हो का पत्ता है। पत्ता प्रमान को बीचल के स्वाध्य के अधिकार हो। पुराल्य प्रकार को बीचल के स्वाध्य के अधिकार हो। पत्ता प्रकार की की का स्वध्य के का उसकार हो। पत्ता प्रकार को की कि मांग हकता मांग के कि प्रकार हो। पत्ता प्रकार की की का स्वध्य का अधिकार हो। पत्ता प्रकार की की का स्वध्य का अधिकार सात्र कर प्रकार हो। पत्ता की सात्र के स्वध्य कि मीत का स्वध्य के स्वध्य कि सी के अध्य करनु के तह प्रत्य के स्वध्य के सात्र के स्वध्य के स्वध्य के सात्र के स्वध्य के सात्र के स्वध्य की की पत्ता हो। पत्ता की सात्र के स्वध्य के सात्र के सात

स्थान : दिल्ली/मुजफ्फरनगर/कैथल/पानीपत, उत्तर प्रदेश दिनांकः 07.03.2024

ORIX ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

ईमेलः info@or

(पूर्व का ओर्सा अर्दित महानेशियत सर्विसंक शिविदेश) (अरिस्सा आंदी प्रेकान्तुवसर सर्विसंक शिविदेश की एक सरसका कंपनी) पंजीवृत्त कार्योसम्य पर्योद नंसर १४६ मोश की-ऑपरिटिय इंडिट्रम्स स्टरेट, अंपेरी हुन्ती होत, अंपेरी (है), मुंबर्च – 400 059 दूरमाण: +91 22 2559 559345707 01001 विकास: +91 22 2552 5549

परिशिष्ट- IV-ए [नियम ८(6) का परंतुक देखें]

पारामाः - IV-प् [ नचया थ (०) के पाराप्तुक रखा ]
अवावत सर्वाचित्र के लिए अनुमानी विकत्ते सुनना
अवावत सर्वाचित्र के लिए अनुमानी विकत्ते सुनना
अवावत सर्वाचित्र के लिए अनुमानी विकत्ते सुनना
अवावत्र कार्यिन्या , 2002 के तात अवका सर्वाचित्र के किया के तात्र पार्टिम हरियोद कार्यिन्य कार्या के क्षात्र मुख्या हरिया अवावत्र के तात्र अवावत्र के तात्र अवावत्र के कार्या कार्या के कि प्रतिच्या त्र कार्या कार्या के कि प्रतिच्या कार्या कार्या के कि प्रतिच्या त्र कार्या कार्या कर यो कार्या कार्या कर्या कार्या कर यो कार्या कर यो कार्या कर्या कर्या कर्या कर्या करिया क्षात्र क्षात्र क्षात्र के विकास अविकास कर्या करिया क्षात्र करिया क्षात्र के विकास क्षात्र करिया क्षात्र के व्यवत्य क्षात्र के विकास क्षात्र करिया कार्य करिया क्षात्र क्षात्र करिया क्षात्र क्षात्र कर क्षा क्षात्र कर क्षात्र कर क्षात्र कर क्षात्र कर क्षात्र कर क्षात्र क

कर्जदारों तथा	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मृल्य (२.)
सह-कर्जदारों का नाम		
बकावा गणि		ईएमडी
मांग सूचना की तिथि		बोली वृद्धि गशि
<ul> <li>मेसर्स जमील अहमद</li> <li>कंस्ट्रक्शन्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड</li> <li>जहीर अहमद</li> </ul>	छत के अधिकार के साथ तीसरी मॉक्स, संपत्ति संख्या 173 पर निर्मित, प्लॉट क्षेत्र 272.20 वर्ग गज, बैंक एन्वतंत्व, लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092 में स्थित हैं, और इसकी सीमा:-पूर्व: प्लॉट ने 172, पश्चिम: प्लॉट नें. 174, उत्तर: गेंड, दक्षिण: सर्विस लेन	रु. 1,56,75,000/- (रुपये एक करोड़ छप्पन लाख पचहतर हजार मात्र) जमा धरोहर राशि 10% रु. 15,67,500/- (रुपये पन्द्रह
* फरीदा अहमद		लाख सइसठ हजार पांच सी मात्र)
रु. 1,93,68,794.67/- दिनांक : 04.03.2024		बोली वृद्धि ग्रींग 50,000/- (रुपदे पद्मास हजार मात्र)
मांग सूचना दिनांक : 11-12-2018		
• मेसर्स कृष्णा इंटरप्राइजेज • लक्ष्मण • भपेन्द्र सँगी	मकान नंबर 416, प्लॉट एरिया 260 वर्ग गज, और निर्मित क्षेत्र 1755 वर्ग फीट, खसरा नंबर 126 में से, पुराने लाल डोरे (1908-09), सैनी मोडल्ला, गांव नांगलोई जाट, नई दिल्ली -110041 पर स्थित,	कः 1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़ मात्र)
* सरुणा रानी * १ १.75 ६० ३९१ २३/-	सना माहल्ला, गांव नागलाई जाट, नई १६ल्ला –110041 पर स्थत, और इसकी सीमा इस प्रकार हैं:- पूर्व: जितेंदर सिंह का घर, पश्चिम गली उत्तर: गली और जितेंदर सिंह का घर दक्षिण: गली और लॉकी	जमा धरोहर राजि 10% क. 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र)
6. 1,75,60,399.23/- दिनांक 04.03.2024 मांग सूचना दिनांक: 21-07-2021	गला, उत्तरः गला आर ।जबदर ।सङ्घ का वर, दावणः गला आर लाका सैनी का घर	बोली वृद्धि राशि 50,000/- (रुपवे पचास हजार मात्र)
भाग सूचना ।दनाक: 21-07-2021 * मैससं बीन टेडसं		
* मसस बानू ट्रडस * बीनू अग्रवाल * संजय कमार	भूतल, छत के अधिकार के बिना, संपत्ति संख्या 3614, 3615, 3616 और 3617 का हिस्सा, क्षेत्रफल 1130 वर्ग फीट, मुख्य बाजार, बाह्र	रु. 1,42,50,000/- (रुपये एक करोड़ बवालीस लाख पंचास हजार रुपये मात्र)
" मेसर्स संजय टेडर्स	हिंदू राव, वार्ड संख्या काक, सदर बाजार, दिल्ली में स्थित, और	जमा थरोहर राशि 10%
₹. 2.23.93.382.91/-	इसकी सीमाः उत्तरः अन्य की संपत्ति, दक्षिणः अन्य की संपत्ति, पूर्वः अन्य की संपत्ति पश्चिमः मेन मजक	रु. 14,25,000/- (रुपये चीदह लाख पच्चीस हजार मात्र)
दिनांक 01,03,2024	अन्य का संपात, पांचमः मन सङ्क	बोली वदि रात्रि
मांग सूचना दिनांक: 29-11-2022		रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)
* विनय कुमार * पलक आनंद	कपरी भूतल, छत के अधिकार के बिना 'उक्त मंजिल', संपत्ति संस्था जी-29, प्लॉट संख्या 27 और 28 पर निर्मित, क्षेत्रफल 108.9 वर्ग	रु. 27,00,000/- (रुपवे सत्ताईस लाख मात्र)
ष्ठ. 28,32,798.88/- दिवांक 01.03.2024	गज, (18.9 ७ 51.9) लगभग (91 वर्ग मीटर), खसरा संख्या 513 में से, ग्राम मामूरपुर, जी-ब्लॉक, पंजाबी कॉलोनी, नरेला, दिल्ली-	जमा धरोहर संग्नि 10% रु. 2,70,000/- (रुपवे दो
मांग सूचना दिनांक: 22-03-2022	110040 में स्थित, और इसकी सीमा, पूर्व: मकान नंबर जी-28, श्री प्यारे लाल, पश्चिम: गली 18 फीट, उत्तर: श्री किशोरी लाल की	लाख सत्तर हजार मात्र)
	संपत्ति, दक्षिणः गली 15 फीट	बोली वृद्धि राशि रु. 50,000/- (रुपवे पचास हजार मात्र)
• प्रीतम सिंह • अलका बिष्ट • मेसर्स विगरीवट सॉल्यजन प्रा. लिमिटेड	पूरी दूसरी मंजिल, छत/टेरेस के अधिकार के साथ, आवासीय भूखंड क्रमांक-276 पर निर्मित, क्षेत्रफल 500.00 वर्ग गज, सेक्टर-21-ए	रू 1,05,00,000/- (रुपये एक करोड़ पांच लाख मात्र)
* मसस विगयक्ट साल्यूजन प्रा. लिमटड श. 2,24,37,898.31/- दिवांक 01.03.2024	अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, हरियागा-121001 में स्थित है।	जमा धरोहर रात्रि 10% रु. 10,50,000/- (रुपये दस लाख पदास हजार मात्र)
मांग सूचना दिनांक: 14-03-2019		बोली वृद्धि ग्रीश क. 50,000/- (रुपये प्रचास हजार मात्र)
* मैससं विद्या डेंटल वलीनिक		% 1.55.00.000/-
* मसस ।वद्या डटल वलानक * अशोक कमार	प्लॉट संख्या ए-51 और 52, संपूर्ण प्रथम तल/द्वितीय तल, तीसरी मॉजल का अधिभाजित आधा भाग, माप 2758 वर्ग फट, निर्मित क्षेत्र	रु. 1,55,00,000/- (रुपये एक करोड पचपन लाख मात्र)
* पूजा गका	और भमि क्षेत्र 137.61 वर्ग मीटर, सीमाएं: चीधरी मॉल, अंबेडकर	
%. 1,92,14,828.047-	रोड मार्ग, गाजियाचाद, उत्तर प्रदेश, और इसकी सीमा इस प्रकार है:-	रु. 15,50,000/- (रुपवे पंद्रह
दिनांक 01.03.2024	पूर्वः अंबेडकर रोड (so फीट), पश्चिमः मनमोहन प्रभाकर का	लाख पंचास हजार मात्र)
मांग सूचना दिनांक: 19-04-2021	प्लॉट, उत्तरः जितेंद्र यादव का प्लॉट, दक्षिणः रोड 30 फीट।	बोली वृद्धि राशि रु. 50.000/- (रुपये पचास हजार मात्र)

विक्रों के विरान्त निषयों और तहीं के लिए, कृपचा ओरिक्स लीडिंग एह प्यानीत्रफल तासिक्त होता की प्रकार कि किए. https://www.ORIXindia.com/lessing.php पर दिए गए लिक को रहे वा प्रतिकृत अधिकती की पूछांत सिंह से (संकर्ष विक्र 9-1) -98103899992 पोस्पार से तिमार कका क्यों नहीं के दौरान संकर्ष कर सकते हैं। हैं। हस्ता.∕-प्राधिकृत अधिकारी ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड तिथि : 05.03.2024

नई दिल्ली

#### उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक

आपकी उम्मीद का खाता

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

: एस-24/1-2, प्रथम तल, महावीर नगर, ऑर्डस्ती बाजार, निकट महावीर मन्दिर, वाराणसी-221 002 उत्कर्ष टॉवर, एनएच-31 (एयरपोर्ट गेड), सेहमालपुर, काजी सराव, हरहुआ, वाराणसी, उ.प्र-221 105

#### अचल सम्पत्ति हेतु कब्जा सूचना

京. 花.	खाते का नाम	कर्जदार, सह-कर्जदार, बंधककर्ता तथा जमानती के नाम	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करन की तिथि	मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि
1	1362060000002009	श्री सुमिन्द्र कुमार (कर्जदार), श्रीमती केशमती देवी (गारंटर/बंधककर्ता)		05/03/2024	रु 8,02,904/- तिथि 01/03/2024 तक
		शाराजी नंबर-233, क्षेत्रफल .026 हेक्टेयर यानी 268.04			
-					

प्रशासन का शासका नवा नवार 233, कंपना तठंट केंग्रेस्य मार्च 286,04 वर्ग मीटर वार्ग 2884.11 वर्ग कोट पर रिवास जावारीय स्वतीर का सामक पाए, वीजा- कांद्रीपत अपन्य- कर्युकार परान्य- कर्योवपर प्रतीनों तारतीय पर विशास देशांचा उपन्य 274000 इसकी सीमा प्रशासन कर्या प्रशासन कर्या की पूर्ण मार्चिया अपन्य की प्रतीन अपन्य की प्रशासन कर्या की पूर्ण मार्चिया अपन्य की प्रतीन कर्या की प्रतीन कर्या की प्रतीन कर्या की प्रतीन कर्या कर्या कर्या की प्रतीन कर्या कर्या कर्या कर्या कर्या करिया कर्या क

(अधिकृत प्राधिकारी) उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

एफआस्आर ग्रुप, 11वीं मंजिल, हवात रीजेंसी कॉम्प्लेक्स IndusInd Bank (3) न्यु टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066

[नियम ८(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

नुष्ण, इक्सप्त कहा नावस्त्र का प्राथमिन स्वीवस्त्र होन के नात अवस्त्रवाद ने मतान सम्माना के छानुकालना चुन्हा मामा नव प्राप्ताने के स्वत्य कर स्वाप्त के साथ प्रति का 11(12) के अपीन प्रत्य सामान के स्वत्य का स्वत्य स्वाप्त के साथ प्रति का 11(12) के अपीन प्रदत्त स्वित्य का स्वी क्षा को अपन के साथ प्रति का आधीन करते हैं कि अपीन की अपन के स्वत्य अपनी का स्वत्य का स्वत

किया नहा है कि अधोरतकारों ने करित निषमों के निषम के साथ पठित कारत आधननम को थता 13(4) क अपना अप कारण चार हुए एक मीचे पार्तित सम्मतियों का पीतिक कवता तिया है। करेबंदर, मारंट और राज्यकों की सिर्पा में पर प अभ नतन को सामान तीर पर प्राप्ति सम्मति के साथ लेन-देन करने से एक्ट्रास साथवान किया जाता है और सम्मति के साथ कोई भी लेन देन **इंडमइंड केंक लिपिट**ड के प्रथा के अपीन सोगा।

कर्जदार/ गारंटर/ रेहनकर्ताओं के नाम	डिमाड नोटिस की तिथि	कर्ज की तिथि	डिमोड नीटिस में राशि	संपत्ति का विवरण
आनंद, श्री पंकज आनंद, श्रीमती पूनम आनंद, श्रीमती ज्ञालिनी आनंद, श्री नीरज आनंद मैं. एम एस ट्रेडसं, सुभाष आनंद, श्री पंकज आनंद, श्रीमती पूनम	बाइंस रुपये तथा पर लागत, शुल्क 21.06.2022	छियासट पैसे और व्यय आ 05.03.2024 था इक्कीस पैसे	31.03.2022 को 5,35,48,427.21 रुपये (केवल पांच करोड़ पैंतीस लाख अड़तालीस हजार चार सौ ) के साथ 01.04.2022 से आगे के ब्याज जमा उस	फ्रोहोल्ड कमोशियल प्लो नंबर सीके-1, कौशांवे गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश में रिश्वत बिना छत नं अधिकार के तीस मंजिल, सुपर एरिया 68 वर्ग फीट (63.63 व मीटर) और कवर्ड एरिर
पंकज आनंद, श्रीमती पुनम	रुपये तथा सहस् लागत, शुल्क अँ	ाठ पैसे) के र रिव्यय आदि।		दुकान/कार्यालय क्रमां 3321 के सभी अनिवा अंग।
नीरज संल्स प्रा. लि., नीरज आनंद, सुभाष आनंद, श्री एंकज आनंद, श्रीमती पुनम आनंद, श्रीमती गालिनी आनंद, मेसर्स आनंद एजेंसियां गालिनी आनंद, मैसर्स आनंद एजेंसियां		तथा सोलह र	31.03.2022 को 2,28,20,487.16 रुपये (केवल दो करोड़ अटाईस लाख बीस हजार चार सि) के साथ 01.04.2022 से आगे के ब्याज जमा ग्य आदि।	<ol> <li>एंजल मेगा मॉल निर्मि फ्रीहोल्ड कमिशंबल प्लं नंबर सीके-1, कौशांव गाजिबाबाद (उत्तर प्रदेश</li> </ol>

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड क्षेत्र बस्तान र 1.02-100 विकास अन वार्त, क्षेत्रेर, क्षेत्र 40005 विकास 2128 8.710, बोर न 7.00-22 के 700-25 वांसर वर्त्तर, विक्री वह, बोर्च नर, सामान्य 22010 

हरी ने विसीच परिसंपरियों के प्रतिनृतिकरण एवं पूर्वनिनीण बच्चा प्रति मृति हित अधिनेयम के प्रवर्तन के अधीन **हिंदुला हाजसिर्ं** का प्रतिकृत अधिकारी होने जबा प्रतिनृति हित (क्रांतन) निपमावती 2002 (2002 का ग. ) के निपम के साथ परित सात 15(दे निसों के अंताने निम्नितिक्ति कर्जवादी प्रतिकारमा कर्जवाद प्रपादरों को संदूक्त कर में वे कंडवार का मात्र है) के को मांग नीटिस जारी किया था जिसमें जल्लेखित राहि प्रत्येक खाते के आगे वर्णिंग है उक्त त्वनन की तिथि से 60 दिनों के अंद

पानन करने को कहा गया था। जाता करने के असकत के पर है. इसिंहर एतन्द्रात कर्जाय का बाज बाजा है है. हिम्से के अंद अस्तर अक पार्टि का भूगतान करने में असकत के गई है. इसिंहर एतन्द्रात कर्जाय और गारदर राज्य आज जनता को सुविध किया जाता है कि क्षेत्रसात्री में हम में व्यक्ति संगति का कब्ता, क्या अभिगम भी बादा 13(4), उन्हों ते हमाने के नियम के लेका के अभी कर्ज हमाने हिंदर कर स्वत्य के अस्तान के अनुमार दिवा है। कि किया के इस्तान के अस्तान क्षानी का कब्ता नीच प्रशंक कार्त के सामने अधिन के क्यूनार दिवा है। कि मंत्री के साम कर्जाय और पारदर तथा अनुमार्क्स कर्जाय क्षाने क्षाने का स्वत्य ने न करने के लिए पाकार क्षिया जाता है तथा भागि के साम कोई भी तेन देन <mark>बिद्धना कार्जायन कर्जुनेस सिम्पेट</mark> के प्रभार क्यारी निम्नितियत पत्री और अपरोक्तानुसार पाणि पर सर्वियासक द स्पेया का प्रभार क्षाने क्षान

<b>क</b> . सं.	कर्जदार/गारन्टर के नाम एवं पता	मांग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तिथि	बकाया राशि	अचल सम्पतियों का विवरण	for the time being in for means ('remote e-vot
1	UPILKWILKWILKOWWW000000359 श्री बीरेंद्र सिंह पुरीताल सिंह और श्री स्था स्थातिक सिंह और श्री स्था सीर्वा सिंह प्रनी विवासी प्रति हों. वहारी में 139 एसए को सिंहसा तर्गाट में 139 एसए को सिंहसा तर्गाट मोचन मंदिर रो, कोशलपूरी संकट मोचन मंदिर, गोमली नगर लवानक, मोदो, लवानक, जसर प्रदेश, मासल-28010	08-09-2023 01-03-2024 सांकेतिक	र 36,19,893/- दिनांक 26-08-2023 तक + व्याज इत्यादि	निर्मित मकान जोकि प्लॉट में, इसी के हिस्से पर भूमि खसरा में, 139 एकर (युवाना खसरा मं, 139) एकर पुराना खसरा मं, 139ए और भी ग्राम—खरापुर, पराना, ताहसील एवं जिला—लखनक (उ.प्र.) में स्थित, साव-पिलापुर—क्षितीय लखनक, क्षेत्रकल हुउ, कि अंत मं, साविष्ट जर में में पार्ट में इसी का ग्रोश माग, प्रक्षिण में — समिति का प्लॉट, पुराव में — 9 मी, ग्रीडी गरें, पश्चिम में — प्लॉट मं, 4	Business(es) to be pass  Appointment of Shr of the Company.  Re-appointment of Shr as Managing Directe In compliance with the completed the dispate Wednesday, 6° March, appeared in the Regist
2	आपेदल मं  UPLKWILKNWA000000301  श्री चंद्र प्रकार कर्मा पुत्र स्वामी दयाल कर्मा  और अगिती गुकिया कर्मा पत्र चित्र स्वामी दयाल कर्मा <u>कर्मा, देरोले,</u> संग्र फंडाबाद योज विकार  कार्का, कार्का, लक्ष्मक, उत्तर प्रदेश,  कार्का, लक्ष्मक, उत्तर प्रदेश,  कार्का, लक्ष्मक, उत्तर प्रदेश,  कार्का, लक्ष्मक, उत्तर प्रदेश,  कार्का, चर्चा, व्याप्त,  कार्का, चर्चा, व्याप्त,  कार्का, व्याप्त,  कार्का,  कारका,  कार	22-09-2023 01-03-2024 सांकेतिक	र 24,05,978/- दिनांक 08-09-2023 तक + ब्याज इत्यादि	स्वीट वं 17, खसरा वं 108 का हिस्सा, गांव-भोमरा, परणना, प्रावशील और जिसा-स्वचनक, सब-पिश्चर द्वितीय त्सवनक में हिस्स, क्षेत्रपक 125.464 वर्ग मी, (क्ष्मीट गांवित के प्रावशीली करने के प्रावशीली का स्वीट, पृथ्व में – समिति का स्वीट, परिवन में – समिति का स्वीट,	appeared in the Regist the Depositories / D. Registrar and Transfer March, 2024, (i.e. 'Cut- the Company or its RT2 available on the Compa Exchanges i.e. BSE Lin (NSE') at www.besid website of Nation www.evoting.nsdl.com The Members whose
3	अपोरस में UPANMUNAMOMOMAT2 & COUPEC-PERAMOMOMOMAT2 & COUPEC-PERAMOMOMOMAT2 & COUPEC-PERAMOMOMOMAT2 & COUPEC-PERAMOMOMOMAT2 & COUPEC-PERAMOMOMOMAT2 & COUPEC-PERAMOMOMAT2 & COUPEC-PERAMOMAT2 & COUPEC-PERAMOMOMAT2 & COUPEC-PERAMOMAT2 & COUPEC-PERAMOMATA &	08-09-2023 01-03-2024 सांकेरिक	र 38,43,938/- दिनांक 26-08-2023 तक + व्याज इत्यादि	करित में 302 शुरीम राज स्थित-पूर विश्वासिक स्थापन र 620 के 70 मिल्युक्त पाम न्या स्थापन र 620 के 70 मिल्युक्त पाम न्या स्थापन र 620 के 70 मिल्युक्त पाम न्या प्रत्यात्त्र प्रत्यात्त्र के 70 मिल्युक्त स्थापन र 620 मिल्युक्त	Beneficial Owners as Resolutions as set for instead of submitting Members shall be red them as on the Cut-off should treat this Postal in accordance with the engaged the services or to its Members. The de enumerated in the Post 9:00 A.M. (IST) on Frid 7" April, 2024 (both di beyond the said date an beyond the said date an the said date and the said date and the said date and the said the said the said the the said the said the said the said the the said the said the said the said the said the the said the said the said the said the said the the said the said the said the said the said the said the said the the said the sa
4	आवेदन नं.  UP/LLKWLKMO00000233 श्री अजाज अली पुत्र समशाद अली और श्रीमती गुलशन बानो पत्नी अजाज अली, दोनों निवासीः मकान नं. 281. संकरः—1. बास्तुखंड, गोमती नगर, धार्मीण, लखनक, चत्त्रसुखंड, गोमती नगर, धार्मीण, लखनक, चत्त्रसुखंड, मोस्तु नगर, धार्मीण, लखनक,	08-09-2023 01-03-2024 सांकेतिक	र 37,95,522/- दिनांक 27-07-2023 तक + ब्याज इत्यादि	प्लॉट खसरा मं. 120 वर निर्माणित मकान, 128 (मिनजुमाता) जोकि 101, अवध एकंडमी रख्तुत के पारा, गुलदत्ता कोलोनी, चिनहर, वार्ड चिनहर, लखनक में स्थित, बेजफल 8365 वर्ष मी, जीवटी- उत्तर में — पश्चित जी का मकान, उद्देशन में — अतमन, 20 फीट श्रीक थे, पूरव में — वीगर का मकान, पश्चिम में — वीगे जी का	Shri Anup Vaibhav C. I Secretaries, has been through postal ballot. The result of the Posta 2024, and will be displa Office. The result will a NSDL and will also be in In case of any queries?
5	्याचेत्रम् मं   IPPLKWILLAWIAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	14-09-2023 01-03-2024 सांकेतिक	र 11,22,038/- दिनांक 22-08-2023 तक + स्याज इत्यादि	आवासीय चर्नीट (मकामः वस्ताः में 224 मिनपुत्रपत्र, धान-भेष्यः (बातः सीमः) प्रान-भेष्यः (बातः सीमः) प्रान-भेष्यः (सीमः प्रान्तः प्रवाधिव्यावश्यः (सीमः प्रान्तः) प्रवाधिव्यावश्यः (सीमः प्रान्तः) प्रवाधिव्यावश्यः (सीमः प्रान्तः) प्रवाधिव्यावश्यः (सीमः सीमः प्रान्तः) प्रवाधिव्यावश्यः (सीमः सीमः प्रान्तः) प्रवाधिव्यावश्यः सीमः प्रान्तः (सीमः सीमः वावः प्रवाधः सीमः सीमः सीमः सीमः सीमः सीमः सीमः सीम	the Frequently Asked manual for Share! www.evoing.nsdl.com request at evoting@ms request at evoting@ms process as mentioned related to Postal Ballol Register of Members has not received investorrelations.rrwlg
दिः	तहसील-रामनगर, जिला-बाराबंकी, उ.प्र		प्राधिकृत ३	विकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	Place : Mumbai Dated: 6" March

# 

#### RAM RATNA WIRES LIMITED RR SHRAMIK (CIN: L31300MH1992PLC067802

Regd. Office: Ram Ratna House, Victoriamill Compound (Utopia City), Pandurang Budha Karm Marg, Worli, Mumbai - 400 013. Tel: +91 - 22 - 2494 9009l 2492 4144

#### NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given to the members of Ram Ratna Wires Limited ("the Company") pursuant to the provisions of Section 110 read with Section 108 of the Companies Act, 2013. (The Act) read with thield 20 and Rule 22 of the Companies Act, 2013. (The Act) read with thield 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. (The Rules). Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretarials candid an General Circular No. 1902. Traced with General Circular No. 1902. Traced with General Circular No. 1902. (2014). To Rules and Secretarial Standard ("MCA"). (collectively the "MCA Circulars"), SEIB (Listing Obliqations and Discosure Requirements Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and other applicable provisions. If any, of the Act, rules, regulations, circulars and resolutions of the Company of the Company of the Company of the Rules ("Rules"), Collectively the "MCA Circulars"), SEIB (Listing Obliqations and confidence of the Company of the Company.

- Appointment of Shri Ankit Kena turn: www.
  of the Company.

  Re-appointment of Shri Mahendrakumar Rameshwarlal Kabra (DIN: 00473310

of the Company.

Re-appointment of Shri Maheedrakumar Rameshwarlal Kabra (DNR 00473310) as Managing Director of the Company.

In compliance with the MCA Circulars and provisions of the Act, the Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice, by electronic mode only, on Wednesday, 6" March, 2024 to those members of the Company whose names appeared in the Repister of Members / 11 to Beneficial Owners as received from the Depositories / Datamatics Business Solutions Limited, the Company's Register and Planes of August 2014 (as a close of business bancars on Height / March, 2024, (i.e. Cut-off date) and whose e-mail addresses are registered with the Company or Ist Rand and the Opensionies. The said Postal Ballot Notice is also available on the Company's website of Marwinschen, websites of the Stock Echanges is 6.8 Elimited (PSE) and administ Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.besindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Scotc Exchange (NSE) at www.besindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Scotc Exchange (NSE) at www.besindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Scotc Exchange (NSE) at www.besindia.com

Shiri Anup Vaibhav C. Khanna, Partner, M/s. Khanna & Co., Practicing Compan Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-votin

through postal ballot.
The result of the Postal Ballot will be announced on or before Tuesday, 9" April 20224, and will be displayed on the notice board of the Company at its Registerec Office of the Postal Ballot of the Website of the Company, website of MSDI, and will also be intimated to MSDI and MSI also be intimated to MSDI.

NSDL and will also be intimated to NSE and BSE. In case of any queries (gireraness connected with remote e-voting, you may refer to receive the Frequently Asked Questions (FAS) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.veoting.msdc.om. crail on: 022-4886 7000 and 022-2987 7000 or sended request at exoting@nsdl.com.

The Members who have not yet registered their e-mail address, can follow the process as mentioned in the postal ballot notice. Further in case of any queries related to Postal Ballot Notice in least any member whose name appears in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on the cut-off date, has not received the Postal Ballot Notice, he/she may write to investorelations.rnv@girglobal.com.

For Ram Ratna Wires Limited

Saurabh G Company Secre